

सेवा मे,

विषय - विश्व अहिंसा दिवस (गांधी जयंती) पर गिरजाघर चर्च मे हुये हिंसा और तोड़ फोड़ के माध्यम से बनारस के सदभाव और शांति को बिगाड़ने के संदर्भ मे

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थीगण बनारस के तमाम सामाजिक संगठनो से प्रतिनिधित्व करते हैं। महोदय, दिनांक 2/10/2018 को गांधी जयंती के पावन दिन पर, शाम 4 से 5 के बीच कोई 'हिन्दू युवा शक्ति संगठन' के नाम पर चालीस पचास लोग गिरजाघर गोदौलिया चौराहे पर स्थित सेंट थामस चर्च पर पहुंचे और वहां के दोनों गेट के ताले तोड़े और चर्च परिसर में घुस कर तोड़फोड़ किया, नारेबाजी की व चर्च के दरवाजे के बगल में लगा नोटिस बोर्ड तोड़ दिया गया जिसकी लिखित तहरीर चर्च के पादरी ने थाना दशाश्वमेध में दर्ज करा दिया है जिसका मुकदमा संख्या 123/18 पर धारा 452/427 आईपीसी दर्ज हुआ है।

महोदय, फेसबुक व सोशल मीडिया पर कुछ लोग ईसाई समुदाय व उनके पुरोहितों को धमकी भरा संदेश प्रसारित करते हुए पुनः चर्च पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। और धर्मांतरण का मनगढ़ंत आरोप लगा कर दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण ईसाई समुदाय में दुख भय व आतंक का माहौल व्याप्त होगया है। महोदय, बनारस शहर ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहज़ीब के साथ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा इस सर्वधर्म एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, उक्त चर्च 200 साल पुराना है जो सप्ताह में सिर्फ रविवार को ही खुलता है जिसमे आसपड़ोस के सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था से चर्च में आते जाते हैं और अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं जो आपसी सौहार्द को दर्शाता है। पूरे क्षेत्र में इस चर्च के प्रति आदर और सम्मान रहा है। अतः महोदय, हम बनारस के तमाम सामाजिक मंच के लोग शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी कराया जाए ताकि बनारस शहर में अमन चैन बना रहे कोई अप्रिय घटना ना हो, शहर की शांति बनी रहे। साथ ही गिरजाघर चौराहे के चर्च की एवं बनारस के सभी धर्म स्थलों की सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए जिससे कि धार्मिक माहौल ना बिगड़े और शांति कायम रहे।

धन्यवाद। प्रार्थीगण

साझा संस्कृति मंच

काशी कौमी एकता मंच

नागरिक प्रयास मंच

इंसाफ मंच Hb

राष्ट्रीय इंकलाबी दलित आदिवासी मंच (रिदम)

एशियन ब्रिज